



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 ई०
(माघ 15, 1946 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,

(पंचायत एवं नगरीय निकाय) प्रतापगढ़

संख्या 15/जि०नि०का०(पं० एवं न०नि०)/उप निर्वा०/स०क्षे०पं०/2025

दिनांक : 04 फरवरी, 2025 ई०

सार्वजनिक सूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सपठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-264ख के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की निर्गत अधिसूचना संख्या-70/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/62-24/2025 दिनांक 03 फरवरी, 2025 के क्रम में मैं, शिव सहाय अवस्थी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) प्रतापगढ़ एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद-प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराये जायेंगे:-

समय-सारिणी

नाम निर्देशन-पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन-पत्रों की जांच का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
08 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	10 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	11 फरवरी, 2025 (अपराह्न 03:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19 फरवरी, 2025 (प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	21 फरवरी, 2025 (प्रातः 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त प्रादेशिक क्षेत्र की संख्या व नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	सम्बद्ध वार्ड	पद का आरक्षण
1	2	3	4	5	6	7
1	मंगरौरा	सदस्य क्षेत्र पंचायत	20—दरछुट	दरछुट	1 से 12	अनुसूचित जाति
2	रामपुर संग्रामगढ़	सदस्य क्षेत्र पंचायत	10—धारूपुर द्वितीय	धारूपुर	9 से 15	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	लालगंज	सदस्य क्षेत्र पंचायत	17—अगई तृतीय	अगई	7 से 9	अनुसूचित जाति

2. अधोहस्ताक्षरी की उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने से सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 05 फरवरी, 2025 को निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे। नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और सम्बन्धित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेंगे। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा।

3. उपर्युक्त उप निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत, सदस्यों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत, मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत, मुख्यालय पर की जायेगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत, के स्थानों/पदों की निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत, मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

शिव सहाय अवस्थी,
जिला मजिस्ट्रेट /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
प्रतापगढ़।